

बीईएमएल ने देश की सबसे बड़ी डंप ट्रक का अनावरण किया

बीईएमएल, जो खनन और निर्माण उपकरण के प्रमुख निर्माता है, ने रियर बड़े पैमाने पर कोयला के खनन अनुप्रयोगों के लिए देश की पहली इलेक्ट्रिक ड्राइव रियर डंप ट्रक बीएच205-ई का अनावरण किया है।

कंपनी के मैसूर स्थित परिसर में आज सम्पन्न समारोह में, श्री पी. द्वारकानाथ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कंपनी के निदेशकगण तथा कार्यपालकों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में श्री जी मोहन कुमार, सचिव (रक्षा उत्पादन), रक्षा मंत्रालय द्वारा देशज डिजाइन और विकसित उपकरण का अनावरण किया गया।



बीएच205-ई रियर डंप ट्रक 2300 अश्वशक्ति क्षमतावेले टीयर- ॥ उत्सर्जन योग्य माँड्यूलर कॉमन रेल इलेक्ट्रॉनिक इंजन द्वारा संचालित है। इसकी एसी ड्राइव प्रणाली को न्यून रखरखाव के साथ असाधारण सड़क दौड़ प्रदर्शन प्रदान करने के लिए निर्मित किया गया है।

सम्पूर्ण रूप में लदान करने पर 335 टन वजन युक्त बीएच205-ई को विस्तृत स्टीयरिंग कोण के पावर स्टीयरिंग के साथ आसानी से गतिशील किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अल्प मोड़ त्रिज्या और बेहतर गतिशीलता प्राप्त होती हैं। सह-ऑपरेटर सीट के साथ सुविन्यास उपयोगकर्ता-हितैषी डिजाइन उपकरण पैनल, दूरबीन/झुकाव सक्षम स्टीयरिंग व्हील, तीन बिंदु सीट बेल्ट के साथ समायोज्य ऑपरेटर कुशन सीट सहित विशाल आरओपीएस योग्य कैबिन, कैबिन के समान शीतलन के लिए फ्रंट ए सी, उत्कृष्ट दृश्यता के लिए बड़े रंगा हुआ कांच की खिड़कियों सहित सभी सुरक्षा सुविधाओं का भी प्रावधान किया गया है जिसमें आपातकालीन स्टीयरिंग, ब्रेकिंग और निकटता चेतावनी के लिए प्रावधान भी शामिल हैं।

नई पीढ़ी की उक्त डम्प ट्रक के परिचय के साथ, बीईएमएल ने अनुकूलतम लागत के साथ “मेक इन इंडिया” नीति और संवृद्ध कोयला उत्पादन की ओर से खनन कार्य में आत्मनिर्भरता, संवृद्ध उत्पादकता हासिल करने में अपने अनुसंधान और विकास प्रयासों में एक और मील का पत्थर को छू लिया है।

बेंगलूर

बीईएमएल लिमिटेड द्वारा रिलीस

05.03.2015